

### **ICRA** Limited

August 5, 2019

**BSE** Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the extracts of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited for the quarter ended June 30, 2019 published in the following newspapers on August 3, 2019, pursuant to regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

1. Financial Express

2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

phuna. Sincerely,

Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

(₹ in lakh)

(₹ in lakh)

### NATIONAL FITTINGS LIMITED CIN: L29199TZPLC008034

SATURDAY, AUGUST 3, 2019

Read. Office: SF No.112, Madhapur Road, Kaniyur Village, Via Karumathampatti - 641 659, Coimbatore District. Ph.99432 93000 Email: admin@nationalfitting.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held **on** Saturday, the 10th day of August, 2019 at 11.30 A.M. at S.F. No.112, Madhapur Road, Kaniyur Village, Karumathampatti Via, Coimbatore - 641 659 to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the Quarter ended 30.06.2019.

This intimation and further the outcome of the above meeting will be available on the website of the Company ie www.nationalfitting.com and on the BSE website www.bseindia.com FOR NATIONAL FITTINGS LIMITED

S.Aravinthan Coimbatore 01.08.2019 **Company Secretary** 

### 🚺 INDIA GLYCOLS LIMITED Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road,

Cashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: 05947-269500. Fax: 05947-275315. E-mail: compliance.offcer@indiadvcols.com Website: www.indiaglycols.com CIN: L24111UR1983PLC009097 NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 9th August, 2019 at Noida Uttar Pradesh, to consider and approve inter-alia, the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the first quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2019.

The information is also available on the Company's website at www.indiaglycols.com and the website of the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For India Glycols Limited Place: Noida, U.P. Ankur Jain Date : 02-08-2019 Company Secretary

## KOTIA ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74110DL1980PLC010678 Read. Off: 905. New Delhi House. 27. Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Tel:- 91-11 -40045955 Email: compliance@kotiaenterprises.com Website: www.kotiaenterprises.com NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29(1) (a) & 47(1) (a) & 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of M/s Kotia Enterprises Limited will be held on Monday, 12th August, 2019 at registered office of the Company to consider and approve Standalone Un-Audited Financial Results for the guarter ended 30th June, 2019 and consider and approve revised Standalone Audited Financial Results of the Company for the Quarter/ Financial Year ended March, 31, 2019

Pursuant to SEBI (Prohibition of insider Trading) Regulations, 2015, for trading in Securities of the Company, the trading window for dealing in securities of the Company by insiders has been closed with effect from August, 03rd, 2019 and remain closed till August, 14th, 2019.

For Kotia Enterprises Limited Ankit Agarwal Place: New Delhi Managing Director DIN: 05254327 Date: 02.08.2019

DK JAIN LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II. Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046, Tel: 011-49857832 Email: shares@lumaxmail.com, Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech.com CIN: L31909DL1981PLC349793

### NOTICE


Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10" August 2019, inter-alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the 1"Quarter ended 30" June 2019.

website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxautotech as well as on the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. Pursuant to the Code of Conduct to

The information is also available on the

Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons, the "Trading Window" closure period has commenced from Monday, 1st July 2019 till 48 hours from the end of the Board Meeting

For LUMAXAUTO TECHNOLOGIES LIMITED Place: New Delhi ANILTYAGI Date: 02.08.2019 COMPANY SECRETARY



# India Power

Corporation Limited CIN: L40105WB1919PLC003263 [Formerly DPSC Limited] Plot X1- 2&3, Block-EP, Sector-V,

Salt Lake, Kolkata -700 091 Tel.: + 91 33 6609 4300/08/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452 E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

**NOTICE** pursuant to Regulations 29 and 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 10th August, 2019 inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter

The said notice is also available on the website of the Company (www.indiapower.com) and on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.msei.in) where the equity shares of the Company are listed.

ended 30th June, 2019.

For India Power Corporation Limited

(Prashant Kapoor) Company Secretary &

Compliance Officer Place : Kolkata Date: 3rd August, 2019

### OSBI

Sustainability Department, Corporate Centre, State Bank Bhavan, 9th Floor, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021.

### REQUEST FOR PROPOSAL

State Bank of India (SBI) invites application from interested parties for engagement as consultant for preparation of Bank's Sustainability report for the F.Y 2019-20. Proposals are invited by 17.30 hours (IST) on 23.08.2019 from reputed firms/companies to undertake the assignment. For further details, interested parties may visit our website https://www.sbi.co.in or https://bank.sbi

Place: Mumbai Deputy General Manager (Sustainability) Date: 03.08.2019

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI

Head Office, Information Technology Department, C-4, G Block, Star House-2, 8th floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051. E-mail: headoffice.it@bankofindia.co.in

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) For Comprehensive on-site maintenance contract for maintenance and facility management of Network Equipment & Peripherals at our Head Office, Star House-2

The captioned RFP is available on Bank's corporate website till 21.08.2019. Details available on the Bank's Corporate Website www.bankofindia.co.in under "Tender" section from 01.08.2019.

> SURYA FUN CITY LIMITED Regd. Office: SCO 1086-87, Sector 22B, Chandigarh-160022 E-mail: funcitysurya@yahoo.com, Ph: 0172-2709539 CIN: L74999CH1993PLC013306

### NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 12th August, 2019 at 3:15 p.m. inter-alia to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the guarter ended on 30th June, 2019.

Place: Chandigarh Date: 01-08-2019

Managing Director

For Surya Fun City Limited



AX1/IT/RFP052019/HRMS

Head Office 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-05

### Request for Proposal (RFP)

Bank of Maharashtra invites Proposal from eligible reputed service provider for Supply, Customization, Deployment, Maintenance and Support of an Integrated Human Resource Management System. The details and tender documents are available on Bank's website https://www.bankofmaharashtra.in in the Tenders Section. Bank reserves the right to cancel or reschedule the RFP process without assigning any reason.

Deputy General Manager, Information Technology

#### Notice

NOTICE, pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given, that the meeting of the Board of Directors of Reliance Naval and Engineering Limited ('the Company') is scheduled to be held on Saturday, August 10, 2019, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (both stand-alone and consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2019, of the Financial Year 2019-20.

The above intimation is also available on the website of the Company at www.maval.co.in and on the websites of the BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Date: August 02, 2019 Place: Mumbai

Reliance Naval and Engineering Limited (formerly known as Reliance Defence and Engineering Limited) CIN: L35110GJ1997PLC033193

Registered Office: Pipavay Port, Post Ucchaiya Via Rajula, Dist. Amreli - 365 560, Gujarat, India Tel: +91 2794 305000, Fax: +91 2794 305100 E-mail: rdel.investors@relianceada.com Website: www.rnaval.co.in



Paresh Rathod

Naval and Engineering

For Reliance Naval and Engineering Limited

# VASCON ENGINEERS LIMITED

Registered & Corporate Office: Vascon Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opposite Hyatt Hotel, Pune - Nagar Road, Pune-411014. Tel.: +91 20 3056 2100/200/300, Fax: +91 20 30562600. E-mail: compliance.officer@vascon.com, Website: www.vascon.com Corporate Identity Number: L70100PN1986PLC175750 www.bseindia.com, www.nseindia.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, August 12, 2019 inter alia to consider and approve the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June 2019.

Trading window for dealing in the securities of the Company has been closed from June 30, 2019 and will end 48 hours after the results are made public on August 12, 2019.

Pursuant to Regulation 47(2) of the said Regulations, the information contained in this notice is also available on the Company's website (www.vascon.com) and also on BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

> For Vascon Engineers Limited Vibhuti Dani

Place: Pune Date: August 02, 2019

Company Secretary and Compliance Officer

PI Industries Ltd. CIN: L24211RJ1946PLC000469 Regd. Office: Udaisagar Road, Udaipur - 313 001 (Raj.) Ph: 0294-2492451-55, Fax: 2491946; E-mail: naresh.kapoor@piind.com Website: www.piindustries.com



#### NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sec 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amended from time to time (Rules), that the Company would be transferring all

seven consecutive years to IEPF authority. Adhering to the requirements set out in Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders by registered post at their available address whose share(s) are liable to be transferred to IEPF Account. The

transferred to IEPF Account including all benefits accounting on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the

are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of duplicate certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by September 30, 2019 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF Authority.

The shareholders wish to claim the shares/dividend after same is transferred to IEPF, separate application has to be made to the IEPF authority in form IEPF-5, as prescribed under IEPF rules and the same is available alongwith all details at the IEPF website i.e. www.iepf.gov.in

998. Email: einward.ris@karvy.com on or before the respective due date as per

For PI Industries Ltd.

Date: 01.08.2019

the procedure stipulated in the Rules.



**UNITED BREWERIES LIMITED** Regd. Office: "UB Tower", UB City, No. 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001. Phone: +91-80-45655000

### Fax: +91-80-22211964, 22229488. CIN: L36999KA1999PLC025195 Website:www.unitedbreweries.com, Email:ublinvestor@ubmail.com NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, August 13, 2019 to consider, inter alia, the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019.

This information is also available on websites of the Company and Stock Exchanges viz., www.unitedbreweries.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com. For UNITED BREWERIES LIMITED

Place: Bengaluru Date: August 02, 2019

Repco

Home Finance

Sd/GOVIND IYENGAR Senior Vice President - Legal & Company Secretary

Repco Home Finance Limited

Registered Office: Repco Tower, No. 33, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017 Corporate Office: Third Floor, Alexander Square, Old No.34 & 35, New No.2, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai-600032

CIN-L65922TN2000PLC044655

Ph: (044) - 4210 6650 Fax: (044) - 4210 6651; E-mail: cs@repcohome.com Website: www.repcohome.com

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2019, at the Corporate Office, inter alia to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

A copy of the Notice and the financial results on approval shall be available on the Company's website at www.repcohome.com and also on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place: Chennai Date: 01.08.2019 For Repco Home Finance Limited Sd/- K.Prabhu Company Secretary

### FORBES & COMPANY LIMITED

CIN: L17110MH1919PLC000628 Registered Office: Forbes' Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai 400 001 Tel No.: +91 22 6135 8900 Fax: +91 22 6135 8901 Email Id:investor.relations@forbes.co.in Website: www.forbes.co.in

Notice of 100th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

The 100<sup>th</sup>Annual General Meeting(100<sup>th</sup>AGM) of the Members of the Company will be held at Indian Merchants' Chambers, Walchand Hirachand Hall, IMC Building, 4th Floor, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020 on Monday, August 26, 2019 at 4.00 p.m. to transact the Ordinary and Special Business as set in the Notice dated May 30, 2019 of the 100th AGM.

The said Notice alongwith Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report of the Company for Financial Year 2018-19 inter alia containing Directors' Report, Corporate Governance Report, Business Responsibility Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements has been physically dispatched to the Members at their registered address and through email on August 2, 2019 through electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) to all the Members who have registered their email lds. Any member desirous of physical copy of Notice and/or Annual Report may send request for same to 'investor.relations@forbes.co.in' or write to Company Secretary at Registered Office of the Company. The Annual Report for Financial Year 2018-19 is also available on the Company's website: www.forbes.co.in and on the website of National Securities Depository Limited (NDSL) website: https://www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date (record date for e-voting) of August 19, 2019, are provided with the facility to cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 100th AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NDSL). All Members are informed that:

The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 100"AGM may be transacted by electronic voting;

The date of completion of posting of Notice of 100h AGM is August 2, 2019; and The e-voting period shall commence on Friday, August 23, 2019 at 9.00 a.m and shall end on Sunday, August 25, 2019 at 5.00 p.m. after which voting shall not be allowed. Once the vote on a resolution is cast by the Member by e-voting, he shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 100hAGM may also attend the 100+AGM but shall not be entitled to vote again at the

For the process and manner of e-voting, Members may refer to the instructions in the Notice of 100th AGM and to the Frequently Asked Questions(FAQs) and e-voting user manual available at https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL,4<sup>th</sup> floor, A wing, Trade World, Kamala Mills Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 email: evoting@nsdl.co.in or call onToll free no.1800 22 2990.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, August 20, 2019 to Monday, August 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 100th AGM of the Company and payment of dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2019. The dividend that may be declared at the Annual General Meeting will be paid within the prescribed time to those Members whose names stand on the Register of Members of the Company on August 19, 2019 and in respect of shares in electronic form the dividend will be paid to the beneficial owners of the shares at the end of business hours on August 19, 2019 as per the details provided by the Depositories for this

For Forbes & Company Limited

Pankaj Khattar Head Legal & Company Secretary Mumbai, August 2, 2019

### DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SOUTH) II JAL SADAN: LAJPAT NAGAR: NEW DELHI NIT No. 15/S-II/2019-20

**Press Tender** 

S. No.	Name of work	Reserve price	Date of release of tender in e procurement solution	Last date and time for download & RTGS through e procurement solution
1	Replacement of old damaged main sewer line of Garhi Village Main Market under EE(S)II (AC-42 Kasturba Nagar) Re-invite		2019_DJB_177493_1 1.08.2019	17.8.2019 upto 2.00 PM
2	Replacement/shifting of sewer line from Lalit Kala Academy Campus to main road upto nallah opp. East of Kailash SPS under EE(S)II (AC-42 Kasturba Nagar) Re-invite		2019_DJB_177493_1 1.08.2019	17.8.2019 upto 2.00 PM
3	Trapping of sewerage system of flyover Market (Jangpura Extension side ) by P/L outfall sewer line under EE(S) II (AC-42 Kasturba Nagar)		2019_DJB_177493_1 1.08.2019	17.8.2019 upto 2.00 PM

Further details in the regard can be seen at **govtprocurementdelhi.gov.in** ISSUED BY P.R.O (WATER)

**EXECUTIVE ENGINEER (SOUTH) II** Advt. No. J.S.V. 233 (2019-20)



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com **EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR** THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,137.73	23,013.83	5,652.96
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,491.10	9,597.30	2,276.46
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,480.81	9,574.19	2,272.45
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		53,859.47	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
- 8	Basic:	15.50	98.36	23.08
	Diluted:	15.50	98.32	23.06

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,703.63	32,806.00	7,866.59
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,035.29	10,458.26	2,537.91
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,024.09	10,414.94	2,537.72
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		62,825.10	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -			
	Basic:	20.91	106.63	25.56
	Diluted:	20.91	106.58	25.54

The Company is in the process of addressing certain ongoing matters. Firstly, the Securities and

subsidiaries. The settlement application filed in this regard by the Company has been rejected by SEBI. The Company is also cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter. Secondly, the Board of Directors of the Company has appointed external experts to examine and report on anonymous representations against its officials, which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). There have been certain retaliatory allegations during the course of the internal examination of the Representation for which the Board is in process of appointing external experts to examine. Thirdly, the Company has received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group. While the Company has made a provision for penalty on a prudent basis with regards to the

Exchange Board of India ("SEBI") has initiated adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding")

related to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's

Adjudication Proceeding, the Adjudication Proceeding as well as the examinations and other matters noted above remain ongoing and the results of which are not yet available or known. In the meantime, the Board of Directors of the Company, on July 1, 2019, placed its Managing Director and Group CEO on administrative leave, with immediate effect until further notice.

As on date, the Company is unable to estimate the impact, if any, that may result from a potential unfavorable conclusion of these matters or any related inquiry.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and auditor's review reports are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors Arun Duggal Chairman (DIN: 00024262)



### **INOX LEISURE LIMITED** (CIN: L92199GJ1999PLC044045)

Registered Office: ABS Towers, Old Padra Road, Vadodara – 390 007, Gujarat

Telephone: (91 265) 6198111 Fax: (91 265) 2310312 Website: www.inoxmovies.com Email ID: contact@inoxmovies.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2019

Sr. No.	Particulars		Year ended			
		30-06-2019 (Unaudited)	31-03-2019 (Audited)	30-06-2018 (Unaudited)	31-03-2019 (Audited)	
1	Revenue from operations (net of taxes)	49,301	47,884	41,494	1,69,218	
2	Net Profit for the period before tax (Before exceptional Items)	4,154	7,316	5,669	20,410	
3	Net Profit for the period before tax (After exceptional Items)	4,154	6,816	5,669	19,910	
4	Net Profit for the Period after tax (After exceptional Items)	2,701	4,808	3,699	13,349	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	2,589	4,813	3,706	13,355	
6	Other equity excluding revaluation reserve (net of Inox Benefit Trust)				86,120	
7	Paid-up equity share capital (face value Rs. 10 per share)	10,263	10,261	9,617	10,261	
8	Earnings per share (face value of Rs.10/-each)					
	a) Basic (Rs.)	2.75*	4.98*	4.03*	14.20	
	b) Diluted (Rs.)	2.75*	4.97*	4.03*	14.19	

Place : Gurugram

Date: August 1, 2019

(\*) Not annualized Notes:

The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 2nd August, 2019. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above results for the guarter ended 30th June, 2019 and have issued unmodified review report.

The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.inoxmovies.com).

Information on Standalone Financial Results:

Sr. No.	. Particulars		Year ended		
		30-06-2019	31-03-2019	30-06-2018	31-03-2019
1	Revenue from operations (net of taxes)	49,301	47,884	41,494	1,69,218
2	Net Profit for the period before tax (After exceptional Items)	4,152	6,815	5,668	19,907
3	Net Profit for the period after tax (After exceptional Items)	2,699	4,807	3,698	13,347

For INOX Leisure Limited

Place : Mumbai Siddharth Jain Date: 2nd August, 2019 Director 

Protection Fund (IEPF)

those equity shares on which dividends have remained unpaid / unclaimed for

Company has uploaded on its website: www.piindustries.com , the details of shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF Demat Account, which can be traced through the Client ID or Folio number. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares

procedure prescribed by the Rules. The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares

The concerned shareholders have been advised to make their claim for the unclaimed dividends in respect of the shares held by them by writing to the company or the Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Fintech Private Ltd. (Unit: PI Industries Ltd.), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Attn: Mr. N. Shiva Kumar, Tel.: +91-40-6716 1700 / 1701; Toll Free No.: 1800-4258-

Place: Gurgaon Naresh Kapoor Company Secretary

**MAXPLUS LOGISTICS LIMITED** 

MC-STITCH LIMITED)

LOSS CIN: L65999DL1985PLC02232

Regd. Office: 1, Community Centre,

East of Kailash, New Delhi-110 065

email: sanjeev.chandra@gmail.com

website: www.maxpluslogisticslimited.com

**Tel. No.**: 011-49057869

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure

Requirement) Regulations, 2015, Notice is

hereby given that a Meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to be

eld on Wednesday, 14th August, 2019 at the

Registered Office to inter alia approve and take

on record the Un Audited Financial Results

for the Quarter ended 30th June, 2019, alongwith

The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.msei.in and

For Maxplus Logistics Limited

Sanjeev Chandra

Director and CEO

imited Review Report thereon.

www.maxpluslogisticslimited.com

Company's website

Place : New Delhi

Date : 01.08.2019

CIN: L74899DL1994PLC063387 Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi - 110 019 Website: www.mcil.net. Email: info@mcilindia.net Tel: 011-41808125 NOTICE

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 3:00 p.m. at the Registered Office of the company, to, inter alia, consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended The said notice may be accessed on the Company's

website at www.mcil.net and may also be accessed on the website of the stock exchange at www.bseindia.com For Metal Coatings (India) Limited Piyush Jain

Place: New Delhi Company Secretary Date: 02.08.2019 & Compliance Officer



निविदा सूचना

NOTICE Notice is hereby given that under 'सुरक्षा समाधान और सेवाओं की Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations आपर्ति, स्थापना और रखरखाव" के and Disclosure Requirement) a Meeting of the Board of Directors of the Company is लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की गई scheduled to be held on Wednesday, 14th हैं। विशेष विवरण तथा संबंधित जानकारी August, 2019 inter alia to approve and take on record the Un-Audited Financial के लिए, आरएफपी बैंक की वेबसाइट Results for the Quarter ended 30th June. www.psbindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही

For Dr Fresh Assets Ltd.

DR. FRESH ASSETS LTD

CIN-L74899DL1990PLC042302

Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan

Co-operative Industrial Estate, Mathura

Road, New Delhi-110 044

Date: 01.08.2019 Vijay Prakash Pathak Whole Time Director DIN: 07081958

# जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

निविदा से संबंधित कोई भी परिवर्तन बैंक

की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जायेगा।

सहायक महाप्रबंधक-आईटी

CIN: L45203UP2007PLC033119 पंजीकृत पता : सेक्टर 128, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश दिल्ली कार्यालय: 'जेए हाउस', 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110067 दरभाष : +91(120) 4609000, फैक्स : +91 (120) 4609464 वेबसाइट : www.jaypeeinfratech.com ई-मेल : jpinfratech.investor@jalindia.co.in

### शेयरधारकों के लिए सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) विनियम, 2016, यथा संशोधित, ('विनियम') के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि सभी शेयर जिनके पिछले लगातार सात वर्षों के लाभांशों का भूगतान या दावा नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा गठित आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दें।

तदनुसार उपरोक्त के अनुपालन में कम्पनी बार-बार शेयरधारकों को कम्पनी की वेबसाइट पर दावारहित लाभांशों के बारे में विवरण उपलब्ध होने की सचना देती रही है और दावारहित लाभांशों के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ अविलंब आवदेन करने का आग्रह करती रही है क्योंकि अब यदि कथित लाभांश और बाकी बचे सभी लाभांशों के दावे नहीं किए गए हैं और बिना दावे के पड़े हैं, तो कम्पनी को आईईपीएफ में दावारहित लाभांश अंतरित करने के समय उससे संबंधित शेयर भी अंतरित करने होंगे जिसके लिए नियत तिथियों का उल्लेख नीचे तालिका में लाभांश के सामने किया गया है। कम्पनी की 10वीं एवं 11वीं एजीएम की सूचनाओं में भी सभी शेयरधारकों को एक विवरण नोट के साथ यह सूचित किया गया, व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से उन सभी अंशधारकों को सूचित किया गया, जिनका नाम नीचे दी गई तालिका के किसी भी लाभांश की सूची में आ रहा है। यह पत्र आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज उनके सबसे हाल के पते पर भेजे गए हैं तथा नवंबर 2017, मार्च 2019 में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा इस प्रकाशित सूचना के माध्यम से भी जानकारी दी गई। कृपया ध्यान रखें कि दावे अविलंब प्रस्तुत करने हैं और प्रत्येक लाभांश के समक्ष दर्ज उल्लिखित तिथियों से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। यह सूचना निम्नलिखित सभी लाभांशों के संबंध में उपरोक्त धारा और विनियमों के अनुसार दी जा रही है और इसके बाद लाभांश और संबंधित शेयर आईईपीएफ में अंतरित करने से पहले कोई सूचना देना कम्पनी के लिए केवल एक विकल्प होगा और अनिवार्य नहीं होगा। आप से पुनः आग्रह है कि नीचे दिए लिंक पर अपलोड फाइलों से अपने विवरण ढूंढ़ लें और यह देख लें कि क्या इन सूचियों में बतौर ऐसे शेयरधारक आपका नाम दर्ज है जिनके लाभांश और शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के लिए बद्ध हैं। ये सूचियां www.jaypeeinfratech.com पर उपलब्ध हैं।

लाभाश	आईईपीएफ में अंतरण की नियत तिथि
अंतिम लाभांश 2011—12	02.11.2019
अंतरिम लाभांश 2012—13	03.09.2020
\	

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित होने हैं कृपया ध्यान रखें कि कम्पनी कथित विनियम के नियम 63 (3) (डी) तहत शेयरों के आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के उददेश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी और इसके बाद शेयरधारक के नाम पंजीकृत मूल शेयर सर्टिफिकेट अपर्न–आप रदद हो जाएंगे और उन्हें लेन–देन के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि शेयर डीमेट रूप में हैं तो नियमानुसार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से सीधे आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि नियमानुसार शेयरों के डीमैट खाते में अंतरण के उददेश्य से कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ववरणों को नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में कम्पनी की ओर से पर्याप्त सूचना (उपरोक्त सभी लाभांशों के लिए)

शेयरधारक कृपया यह भी ध्यान रखें कि दावा नहीं किए गए लाभांश और आईईपीएफ / आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित शेयर ऐसे शेयरों पर एकत्र सभी लाभ (यदि कोई हो) समेत आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म आईईपीएफ 5 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उपरोक्त के संबंध में कोई संशय दूर करने के लिए शेयरधारक कृपया कम्पनी या कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्टार और ट्रांस्फर एजेंट, कार्वी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट 31–32, गाछीबावली, फाइनैंशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगडा, हैदराबाद-500 032; फैक्स सं. 040-23001153, टोल फ्री नंबर: 1800-4258-998, Email:einward.ris@karvy.com. से

> कृते जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (सुरेन्द्र कुमार माटा) अतिरिक्त महाप्रबंधक (सेक्ट.) एवं कम्पनी सचिव

> > (सदस्यता सं. ए-7762)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 01.08.2019

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड

CIN: L65910DL1983PLC016036

पंजी. कार्यालय: 105, अशोका इस्टेट, 24,

बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

E-mail: oswal\_leasing@owmnahar.com

Website: www.owmnahar.com

बोर्ड की बैठक की सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी

(एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 29

के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में कम्पनी

के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 12

अगस्त, 2019 को 3.30 बजे अप. में 105, अशोका

इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की

जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019

को समाप्त तिमाही तथा तीन महीने तथा अन्य समान

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.owm-

nahar.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की

वेबसाईट www.bseindia.com पर देखी जा

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड के लिये

मदों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 2.8.2019

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट्स बैंकर्स लिमिटेड पंजी.कार्या.: यूजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपरी, नई दिल्ली-110058 CIN: L74899DL1994PLC061107 E-mail ID: cmbldelhi@gmail.com Ph. No. 91-11-65382244

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में मै. कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 8 अगस्त, 2019 को पंजी. कार्यालय में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा

Website: www.cmbl.co.in

विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.cmbl.co.in तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड एवं एमएसईआई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट http://www. bseindia.com एवं www.msei.in पर उपलब्ध

कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के लिये

पार्णे वेंकटेश्वर रेड्डी स्थानः नई दिल्ली तिथि: 2.8.2019 DIN: 06446233

प्रपत्र ए सार्वजनिक उदघोषणा

भारत दिवाला तथा दिवालिया मण्डल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत एम.के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

पलक नारंग

(कम्पनी सचिव)

**ACS 43749** 

एम.के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 22/11/1993 यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट **कम्पनी अधिनियम, 1956, रजिस्ट्रार ऑफ** 

ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है

कम्पनी, एनसीटी दिल्ली एवं हरियाणा, नड्

कार्पोरेट पहचान संख्या, कार्पोरेट ऋणधारक U74899DL1993PTC056162 का लिमिटेड लाएबिलिटि पहचान संख्या

कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एस-410, ग्रेटर कैलाश पार्ट-।।, नई तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई<sup>ँ</sup>हो) का पता **दिल्ली—110048** 

कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला 26 जुलाई 2019 (माननीय एनसीएलटी आरम्भ होने की तिथि आईबी—1279 / (एनडी) / 2018 से 26.07

2019 को आदेश दिया गया आदेश की प्रति 01.08.2019 को एनसीएलटी से ईमेल के माध्यम से आईआरपी द्वारा प्राप्त हुआ) दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के 22 जनवरी 2020 अनुमानित तिथि

इन्सालवेन्सी प्रोफिशनल का नाम, पंजीकरण राजीव बजाज संख्या के अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के रूप IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव 4/180, भूतल बैकसाइड, सुभाष नगर प्रोफिशनल का पता एवं ई-मेल नई दिल्ली—110027 ईमेल : rbajajip@gmail.com

10.अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के साथ पत्राचार <mark>4 / 180, भूतल बैकसाइड, सुभाष नगर</mark>, के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा नई दिल्ली—110027 ईमेल : cirpmk@gmail.com

**11.** दावे जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2019 12.क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो धारा 21 की लागू नहीं

उप–धारा (६ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल द्वारा सुनिश्चित

13. किसी वर्ग में क्रेडिटर के प्राधिकृत प्रतिनिधि लागू नहीं के रूप में कार्य करने के लिए पहचान किये गये इन्साल्वेन्सी प्रोफिशनल का नाम (प्रत्येक

वर्ग से तीन नाम) 14. (क) संबंधि प्रपत्र तथा |(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण|https://ibbi.gov.in/home/downloads

फिजिकल पता : लागू नहीं एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रिय कम्पनी विधि अधिकरण से माननीय एनसीएलटी दिल्ली बेंच

सी.पी. नं. आईबी—1279 / (एनडी) / 2018 आर्डर प्राप्त किया जिसकी प्रति 01.08.2019 को एनसीएलर्ट ईमेल के माध्यम से आईआरपी द्वारा प्राप्त हुआ जिसमे एम. के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेव लिमिटेड का कार्पोरेट इन्साल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तद्द्वारा एम. के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों को निर्देश दिया जाता है वि

फाइनेन्शियल क्रेडिटर केवल इलेक्टानिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते है। अन सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत. डाक द्वारा अथवा इलेक्टानिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा क

प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के पास 14.08.2019 को या इससे पूर

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करना दंडनीय है। दिनांक : 03.08.2019

स्थान : नई दिल्ली

आईआरपी ऑफ एम. के. पिकॉक मिनिरल वाटर प्राईवेट लिमिटेर IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

राजीव बजार



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749

Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	5,137.73	23,013.83	5,652.96
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,335.89	13,106.67	3,150.99
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,491.10	9,597.30	2,276.46
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,480.81	9,574.19	2,272.45
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		53,859.47	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)	************	0.0000000100	A.0000000000
	Basic:	15.50	98.36	23.08
	Diluted:	15.50	98.32	23.06

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)		Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,703.63	32,806.00	7,866.59
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,144.98	15,203.81	3,711.73
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,035.29	10,458.26	2,537.91
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,024.09	10,414.94	2,537.72
6	Equity share capital	965.12	965.12	990.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		62,825.10	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -			
-	Basic:	20.91	106.63	25.56
	Diluted:	20.91	106.58	25.54

 The Company is in the process of addressing certain ongoing matters. Firstly, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has initiated adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") related to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries. The settlement application filed in this regard by the Company has been rejected by SEBI. The Company is also cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter. Secondly, the Board of Directors of the Company has appointed external experts to examine and report on anonymous representations against its officials, which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). There have been certain retaliatory allegations during the course of the internal examination of the Representation for which the Board is in process of appointing external experts to examine. Thirdly, the Company has received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group.

While the Company has made a provision for penalty on a prudent basis with regards to the Adjudication Proceeding, the Adjudication Proceeding as well as the examinations and other matters noted above remain ongoing and the results of which are not yet available or known. In the meantime, the Board of Directors of the Company, on July 1, 2019, placed its Managing Director and Group CEO on administrative leave, with immediate effect until further notice As on date, the Company is unable to estimate the impact, if any, that may result from a potential

unfavorable conclusion of these matters or any related inquiry The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The Statutory auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and auditor's review reports are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in.

By Order of the Board of Directors

Arun Duggal Chairman (DIN: 00024262) Place : Gurugram Date: August 1, 2019

शांति सेवा न्याय

हमेशा जल्दबाजी?



कुछ पल बचाने की कोशिश में किशी की जान भी जा सकती है








🕶 गलत दिशा में ड्राइविंग से बचें।

लाल बत्ती का उल्लंघन करने से गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है।

जिग-जैग ड्राइविंग आपके एवं दूसरों के लिए खतरनाक है।

हमसे जुड़े : 🚮 https://www.facebook.com/dtptraffic 📘 https://twitter.com/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in



पंजीकृत कार्यालयः W-39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फॉज-II, नई दिल्ली-110020 ई-मेल आईडी: network.limited@gmail.com वेबसाइट: www.networklimited.net, फोन नं,: 011-41067060 CIN: L32209DL1989PLC034797

सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमही के लिए अन्य बातों के साथ अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, मंजुरी लेने और रिकॉर्ड पर लेने के लिए शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को प्रात: 11:30 बजे आयोजित कते नेटवर्क लिमिटेड

(₹ in lakh)

(₹ in lakh)

अशोक साहनी तिथि: 02.08.2019 स्थान: नई दिल्ली

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L74110DL1980PLC010678 गंजी. कार्या: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110001. फोन:- 91-11 -40045955 ईमेलः compliance@kotiaenterprises.com, वेबसाइटः www.kotiaenterprises.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29(1) (ए) एडं 47(1)(ए) एडं 33 के अनुसरण में, एतदद्वारा सुचित किया जाता है क, मैसर्स कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जुन, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टेंडअलोन अनंकेक्षित वितीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करना और 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाडी / वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करना है।

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, वे अनुसार, कंपनी की प्रतिभृतियों में व्यापार के लिए आंतरिक द्वारा कंपनी की प्रतिभृतियों से निपटने के लिए टेडिंग विन्डों 03 अगरत, 2019 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है और 14 अगस्त, 2019 तक बंद रहेगा। कृतं कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

अंकित अग्रवाल स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक तिथि: 02.08.2019 DIN: 05254327

Selan Exploration Technology Limited Regd. Office: J-47 / 1, Shyam Vihar,

Dindarpur, Najafgarh, New Delhi - 110 043 CIN: L74899DL1985PLC021445 Website: www.selanoil.com E-mail: investors@selanoil.com Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE Notice (pursuant to Regulation 47 of the

SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 10 August 2019 to consider and take on record, inter-alia, the Unaudited Financial Results for the guarter ended 30 June 2019.

For Selan Exploration Technology Ltd.

Pooja Agnihotri Date: 02 August, 2019

GILTS LTD

Company Secretary पीएनबी गिल्ट्स लिमि.

CIN: L74899DL1996PLC077120 NB GILTS रिज. ऑफिसः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23325759, 23325779, फैक्स : 011-23325751, 23325763

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2019 को पूर्वाह 10.30 बजे मल्टी-पर्पस हॉल, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. ४, सेक्टर १०, द्वारका, नई दिल्ली — ११००७५ में निर्धारित की गई है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस, उसका एडेन्डम और मार्च 31, 2019 को समाप्त वित्तिय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है और ये उन सदस्यों को भौतिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी न तो कंपनी के साथ पंजीकृत है और न ही डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को समाप्त कर दिया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम आदि का नोटिस और उसका एडेन्डम कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर Investor Relations>>Financial Results खंड के तहत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को यह प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वे कंपनी सचिव को उपरोक्त पते पर पत्र लिखकर इसकी प्रति के लिये अनुरोध कर सकते हैं। उक्त वार्षिक आम बैठक में संचालित किये जाने वाले बिजनेस की मदों से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिये कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक आम बैठक की तिथि

विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस और उसके एडेन्डम में जरिये हो सकता हैं। एजीएम नोटिस और उसका एडेन्डम एनएसडीएल की

रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 24 अगस्त, 2019 को पूर्वाह 9.00 बजे से शुरू होगी

एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक

एजीएम में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मताधिकार के इस्तेमाल के बाद, मत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

भाग ले सकते है मगर वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डाल सकते। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस के वितरण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है

तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 अगस्त, 2019 तक शेयर अपने पास रखता है, वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध ई—मेल द्वारा भेज सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए|

सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजटरी द्वारा रखे गए लाभांश स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

 सदस्य रिमोट ई—वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया और पद्धित की जानकारी के लिए 23वीं एजीएम के नोटिस को पढ सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से किसी भी स्पष्टीकरण / शिकायत के लिए ट्रेड वर्ल्ड, 'A' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 पर पत्राचार करें अथवा pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नम्बरों पर संपर्क करें: 022-24994545 (Toll free no.-1800-222-990)। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कंपनी सचिव से उपरोक्त पते / विवरण पर अथवा m.kochar@pnbgilts.com पर ई-मेल

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन)। नियम, 2014 के नियम 10 (1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, (क) वार्षिक आम बैठक और (ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय लाभांश रू. 1.40 प्रति शेयर (अर्थात @14%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 17 अगस्त, 2019 से बुधवार, 28 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी। लाभांश यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम 16 अगस्त, 2019 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से दर्ज होंगे। डिमैटीरियलाइज्ड स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भूगतान उन लाभांश स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपोजिटरीज द्वारा 16 अगस्त

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 02.08.2019 (मोनिका कोचर) कम्पनी सचिव

नई दिल्ली



हरियाणा, Ph. No: 0124-4746817 सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत करने एवं कार्यसूची अनुसार अन्य व्यवसाय हेत् कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को कम्पनी के

कारपोरेट कार्यालय प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, **हिरियाणा-122050** में सायं03:00 बजे आयोजित की जायेगी। "कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यस्ची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल में अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या kraleasing1990@gmail.com पर आमंत्रित

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की विवसाइट www.kraleasing.com एवं स्टॉक एक्सचेन्न की वेतसादट www meai in पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसार कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड

हस्ता०/-अंकित धमिजा कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः 26765 पता: एच. न. 165, सेक्टर-04, स्थानः गुरूग्राम पार्ट-॥,अर्बन इस्टेट, करनाल हरियाणा-132001

ई—मेलः pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइटः www.pnbgilts.com

23वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

पंजीकृत है। कंपनी ने इन का वितरण कार्य (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम द्वारा)

तक सभी कार्य दिवसों को (शनिवार को छोड़कर), पूर्वाह 9.30 बजे से अपराह 5.30 बजे तक, उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के दिये गये प्रत्येक मद पर एजीएम स्थल के अलावा किसी दूसरे स्थान से, नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरियें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए एजीएम के निर्धारित बिजनेस का संचालन एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध हैं। अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता हैं

और मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को अपराह 5.00 बजे समाप्त होगी। मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को अपराह 5.00 बजे के बाद रिमोट ई—वोटिंग की

• वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि बुधवार, 21 अगस्त, 2019

में शामिल वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे

जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में

इस्तेमाल कर सकता है। जिन व्यक्तियों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 अगस्त, 2019 को

भेजकर संपर्क भी कर सकते हैं।

2019 की समाप्ति तक दिया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड